



Series EF1GH/5



SET~2

रोल नं. Roll No.							

प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code **67/5/2**

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 80

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 80

नोट / NOTE :

- (i) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 39 हैं।
Please check that this question paper contains 39 printed pages.
- (ii) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (iii) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 34 प्रश्न हैं।
Please check that this question paper contains 34 questions.
- (iv) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.
- (v) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



67/5/2

257 B



Page 1

P.T.O.





सामान्य निर्देश :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 34 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रश्न-पत्र दो भागों में विभाजित है – भाग – क तथा भाग – ख।
- (iii) भाग – क सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है।
- (iv) भाग – ख के दो विकल्प हैं – (I) वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, तथा (II) अभिकलित्र लेखांकन। परीक्षार्थियों को भाग – ख में चयनित विषय के अनुसार केवल एक ही विकल्प के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।
- (v) प्रश्न संख्या 1 से 16 तथा 27 से 30 तक एक-एक अंक के प्रश्न हैं।
- (vi) प्रश्न संख्या 17 से 20, 31 तथा 32 तीन-तीन अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) प्रश्न संख्या 21, 22 तथा 33 चार-चार अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न संख्या 23 से 26 तथा 34 छः-छः अंकों के प्रश्न हैं।
- (ix) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, एक-एक अंक के 7 प्रश्नों में, तीन-तीन अंकों के 2 प्रश्नों में, चार-चार अंकों के 1 प्रश्न में तथा छः-छः अंकों के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।





General Instructions :

- (i) *This question paper contains **34** questions. **All** questions are compulsory.*
- (ii) *This question paper is divided into **two** parts – **Part – A** and **Part – B**.*
- (iii) ***Part – A** is compulsory for all candidates.*
- (iv) ***Part – B** has **two** options i.e. (I) *Analysis of Financial Statements and* (II) *Computerised Accounting*. Candidates must attempt only **one** of the given options as per the subject opted.*
- (v) *Question Nos. **1** to **16** and **27** to **30** carries **1** mark each.*
- (vi) *Question Nos. **17** to **20**, **31** and **32** carries **3** marks each.*
- (vii) *Question Nos. **21**, **22**, and **33** carries **4** marks each.*
- (viii) *Question Nos. **23** to **26** and **34** carries **6** marks each.*
- (ix) *There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in **7** questions of **one** mark, **2** questions of **three** marks, **1** question of **four** marks and **2** questions of **six** marks.*





भाग – क

(साझेदारी फर्मों तथा कम्पनियों के लिए लेखांकन)

1. (a) मानस तथा मिलि एक फर्म के साझेदार हैं तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते हैं। भविष्य के लाभों में 1/4वें भाग के लिए अंकिता को एक नये साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया। मानस तथा मिलि की पूँजी क्रमशः ₹ 3,00,000 तथा ₹ 1,50,000 थी। अंकिता अपनी पूँजी के रूप में ₹ 2,00,000 लाई। अंकिता के प्रवेश पर फर्म की ख्याति का मूल्य था : 1
- (A) ₹ 2,50,000 (B) ₹ 8,00,000
(C) ₹ 4,50,000 (D) ₹ 1,50,000
- अथवा
- (b) मिनी तथा मानसी साझेदार हैं तथा 4 : 3 के अनुपात में लाभ बाँटते हैं। उन्होंने लाभ में 3/7वें भाग के लिए निशा को एक नया साझेदार बनाया, जिसके 2/7वें भाग का अधिग्रहण उसने मिनी तथा 1/7वें भाग का मानसी से किया। मिनी, मानसी तथा निशा का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा : 1
- (A) 4 : 3 : 3 (B) 5 : 3 : 2
(C) 2 : 3 : 5 (D) 2 : 2 : 3
2. नीता, सुमन तथा हरीश एक फर्म के साझेदार थे तथा 3 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ बाँटते थे। सुमन फर्म से सेवानिवृत्त हो गई। सुमन की सेवानिवृत्ति की तिथि को सुमन को ₹ 30,000 देय थे। शेष साझेदारों ने निर्णय लिया कि उसे यह भुगतान तीन वार्षिक किशतों में पहले वर्ष की समाप्ति से प्रारम्भ करके किया जाएगा। ₹ 30,000 का हस्तांतरण निम्न में से किस खाते में किया जायेगा ? 1
- (A) सुमन का ऋण खाता
(B) सुमन के निष्पादक का खाता
(C) सुमन का बैंक खाता
(D) सुमन का चालू खाता
3. प्रीमियर ऑटो लिमिटेड ने आनंद लिमिटेड से ₹ 3,60,000 मूल्य की परिसम्पत्तियों का क्रय किया तथा क्रय मूल्य का भुगतान ₹ 100 प्रत्येक के 11% ऋणपत्रों को 10% बट्टे पर निर्गमित करके किया। प्रीमियर ऑटो लिमिटेड के द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों की संख्या थी : 1
- (A) 3,600 (B) 36,000
(C) 40,000 (D) 4,000





PART – A

(Accounting for Partnership Firms and Companies)

1. (a) Manas and Mili are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3 : 2. Anita is admitted as a new partner for $\frac{1}{4}$ th share in future profits. Capitals of Manas and Mili were ₹ 3,00,000 and ₹ 1,50,000 respectively. Anita brought ₹ 2,00,000 as her capital. The value of goodwill of the firm on Anita's admission. 1
- (A) ₹ 2,50,000 (B) ₹ 8,00,000
(C) ₹ 4,50,000 (D) ₹ 1,50,000

OR

- (b) Mini and Mansi are partners sharing profits in the ratio of 4 : 3. They admitted Nisha as a new partner for $\frac{3}{7}$ th share in profits which she acquired $\frac{2}{7}$ th from Mini and $\frac{1}{7}$ th from Mansi. The new profit sharing ratio of Mini, Mansi and Nisha will be : 1
- (A) 4 : 3 : 3 (B) 5 : 3 : 2
(C) 2 : 3 : 5 (D) 2 : 2 : 3
2. Nita, Suman and Harish were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3 : 2 : 1. Suman retired from the firm. On the date of Suman's retirement, ₹ 30,000 was due to her. The remaining partners decided to pay her in three yearly instalments starting from the end of the first year. ₹ 30,000 will be transferred to which of the following account : 1
- (A) Suman's Loan Account (B) Suman's Executor's Accounts
(C) Suman's Bank Account (D) Suman's Current Account
3. Premier Auto Ltd. purchased assets of the value of ₹ 3,60,000 from Anand Ltd. and made the payment of purchase consideration by issuing 11% Debentures of ₹ 100 each at a discount of 10 %. The number of debentures issued by Premier Auto Ltd. were : 1
- (A) 3,600 (B) 36,000
(C) 40,000 (D) 4,000





4. आदित्य, अभिनव तथा अंकित एक फर्म के साझेदार थे तथा 4 : 3 : 3 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 31 मार्च, 2022 को फर्म का विघटन हो गया। विघटन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आदित्य की नियुक्ति की गई जिसके लिए उसे ₹ 42,000 का पारिश्रमिक देय था। आदित्य विघटन व्यय भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। विघटन पर वास्तविक व्यय ₹ 33,000 हुए, जिसका भुगतान आदित्य ने किया। आदित्य के पूँजी खाते के जमा पक्ष में खतौनी की जानेवाली राशि होगी :
- (A) ₹ 42,000 (B) ₹ 33,000
(C) ₹ 9,000 (D) ₹ 18,000

1

5. इंदू, विजय तथा पवन एक फर्म के साझेदार थे तथा 4 : 3 : 3 के अनुपात में लाभ बाँटते थे। 1 अप्रैल, 2022 से उन्होंने सुभाष को एक नया साझेदार बनाया। इंदू, विजय, पवन तथा सुभाष का नया लाभ विभाजन अनुपात 3 : 3 : 2 : 2 होगा। 31 मार्च, 2022 को उनके स्थिति विवरण का उद्धरण निम्न प्रकार से दिया गया है :

1

देयताएँ	राशि (₹)	परिसम्पत्तियाँ	राशि (₹)
निवेश उतार-चढ़ाव संचय	80,000	निवेश (बाजार मूल्य ₹ 80,000)	90,000

सुभाष के प्रवेश पर 'निवेश उतार-चढ़ाव संचय' का निम्न में से कौन सा लेखांकन सही होगा ?

रोज़नामचा

	विवरण	नाम	राशि (₹)	जमा राशि (₹)
(A)	निवेश उतार-चढ़ाव संचय खाता पुनर्मूल्यांकन खाता	नाम	10,000	10,000
(B)	निवेश उतार-चढ़ाव संचय खाता इंदू का पूँजी खाता विजय का पूँजी खाता पवन का पूँजी खाता	नाम	80,000	32,000 24,000 24,000
(C)	पुनर्मूल्यांकन खाता निवेश उतार-चढ़ाव संचय खाता	नाम	10,000	10,000
(D)	निवेश उतार-चढ़ाव संचय खाता निवेश खाता इंदू का पूँजी खाता विजय का पूँजी खाता पवन का पूँजी खाता	नाम	80,000	10,000 28,000 21,000 21,000





4. Aditya, Abhinav and Ankit were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4 : 3 : 3. On 31st March, 2022, the firm was dissolved. Aditya was appointed to complete the dissolution process for which he was allowed a remuneration of ₹ 42,000. Aditya also agreed to bear dissolution expenses. Actual expenses on dissolution amounted to ₹ 33,000 which were paid by Aditya. Aditya's Capital Account will be credited by : 1
- (A) ₹ 42,000 (B) ₹ 33,000
(C) ₹ 9,000 (D) ₹ 18,000
5. Indu, Vijay and Pawan were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4 : 3 : 3. They admitted Subhash into partnership with effect from 1st April, 2022. New profit sharing ratio among Indu, Vijay, Pawan and Subhash will be 3 : 3 : 2 : 2. An extract of their Balance Sheet as at 31st March, 2022 is given below : 1

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Investment Fluctuation Reserve	80,000	Investments (Market Value ₹ 80,000)	90,000

Which of the following is the correct accounting treatment of 'investment fluctuation reserve' at the time of Subhash's admission ?

JOURNAL

	Particulars	Debit Amt. (₹)	Credit Amt. (₹)
(A)	Investment Fluctuation Reserve A/c Dr. To Revaluation A/c	10,000	10,000
(B)	Investment Fluctuation Reserve A/c Dr. To Indu's Capital A/c To Vijay's Capital A/c To Pawan's Capital A/c	80,000	32,000 24,000 24,000
(C)	Revaluation A/c Dr. To Investment Fluctuation Reserve	10,000	10,000
(D)	Investment Fluctuation Reserve A/c Dr. To Investments A/c To Indu's Capital A/c To Vijay's Capital A/c To Pawan's Capital A/c	80,000	10,000 28,000 21,000 21,000





6. (a) अमित, सुमित तथा कियारा साझेदार हैं तथा 2 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं। सुमित को कमीशन देने के पश्चात शुद्ध लाभ पर 15% कमीशन देय है। कमीशन देने से पूर्व शुद्ध लाभ ₹ 9,20,000 है। सुमित को देय कमीशन होगा :
- (A) ₹ 1,20,000 (B) ₹ 1,38,000
(C) ₹ 48,000 (D) ₹ 55,200

1

अथवा

- (b) पी, क्यू तथा आर एक फर्म के साझेदार हैं तथा 2 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते हैं। 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उनके खाते के जमा पक्ष में पूँजी पर ब्याज की खतौनी 5% प्रति वर्ष की जगह 10% प्रति वर्ष कर दी गई। उनकी स्थायी पूँजी क्रमशः ₹ 2,00,000; ₹ 1,00,000 तथा ₹ 50,000 थी। त्रुटि को सुधारने के लिए आवश्यक समायोजना प्रविष्टि होगी :

1

रोजनामचा

	विवरण	नाम राशि (₹)	जमा राशि (₹)
(A)	पी का चालू खाता नाम क्यू का चालू खाता आर का चालू खाता	2,000	1,000 1,000
(B)	पी का चालू खाता नाम क्यू का चालू खाता आर का चालू खाता	3,000	2,000 1,000
(C)	पी का पूँजी खाता नाम क्यू का पूँजी खाता आर का पूँजी खाता	2,000	1,000 1,000
(D)	पी का पूँजी खाता नाम क्यू का पूँजी खाता आर का पूँजी खाता	3,000	2,000 1,000





6. (a) Amit, Sumit and Kiara are partners sharing profits and losses in the ratio 2 : 2 : 1. Sumit is entitled to a commission of 15% on the net profit after charging such commission. The net profit before charging commission is ₹ 9,20,000. The amount of commission payable to Sumit will be :

1

- (A) ₹ 1,20,000 (B) ₹ 1,38,000
(C) ₹ 48,000 (D) ₹ 55,200

OR

- (b) P, Q and R are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 : 2 : 1. For the year ended 31st March, 2022, interest on capital was credited to them @ 10% p.a. instead of 5% p.a. Their fixed capitals were ₹ 2,00,000; ₹ 1,00,000; ₹ 50,000 respectively. The necessary adjustment entry to rectify the error will be :

1

JOURNAL

	Particulars	Debit Amt. (₹)	Credit Amt. (₹)
(A)	P's Current A/c Dr. To Q's Current A/c To R's Current A/c	2,000	1,000 1,000
(B)	P's Current A/c Dr. To Q's Current A/c To R's Current A/c	3,000	2,000 1,000
(C)	P's Capital A/c Dr. To Q's Capital A/c To R's Capital A/c	2,000	1,000 1,000
(D)	P's Capital A/c Dr. To Q's Capital A/c To R's Capital A/c	3,000	2,000 1,000





7. (a) एल, एम तथा एन एक फर्म के साझेदार हैं तथा 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल, 2022 से उन्होंने लाभों को बराबर बाँटने का निर्णय किया। उस तिथि को सामान्य संचय में ₹ 2,00,000 का शेष था तथा लाभ-हानि खाते में ₹ 4,00,000 का जमा शेष था।

लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण उपरोक्त के लिए रोज़नामचा प्रविष्टि होगी :

1

रोज़नामचा

	विवरण	नाम राशि (₹)	जमा राशि (₹)
(A)	सामान्य संचय खाता लाभ-हानि खाता	नाम 2,00,000	2,00,000
(B)	एम का पूँजी खाता एन का पूँजी खाता एल का पूँजी खाता	नाम नाम 80,000 20,000	1,00,000
(C)	सामान्य संचय खाता लाभ-हानि खाता एल का पूँजी खाता एम का पूँजी खाता एन का पूँजी खाता	नाम नाम 2,00,000 4,00,000	2,00,000 2,00,000 2,00,000
(D)	सामान्य संचय खाता लाभ-हानि खाता एल का पूँजी खाता एम का पूँजी खाता एन का पूँजी खाता	नाम नाम 2,00,000 4,00,000	3,00,000 1,80,000 1,20,000

अथवा





7. (a) L, M and N are partners sharing profits in the ratio of 5 : 3 : 2. They decided to share profits equally with effect from 1st April, 2022. On that date, there was a balance of ₹ 2,00,000 in General Reserve and a credit balance of ₹ 4,00,000 in the Profit and Loss Account. The Journal Entry for the above on account of change in profit sharing ratio will be :

1

JOURNAL

	Particulars		Debit Amt. (₹)	Credit Amt. (₹)
(A)	General Reserve A/c Dr. To Profit and Loss A/c		2,00,000	2,00,000
(B)	M's Capital A/c Dr. N's Capital A/c Dr. To L's Capital A/c		80,000 20,000	1,00,000
(C)	General Reserve A/c Dr. Profit and Loss A/c Dr. To L's Capital A/c To M's Capital A/c To N's Capital A/c		2,00,000 4,00,000	2,00,000 2,00,000 2,00,000
(D)	General Reserve A/c Dr. Profit and Loss A/c Dr. To L's Capital A/c To M's Capital A/c To N's Capital A/c		2,00,000 4,00,000	3,00,000 1,80,000 1,20,000

OR





(b) एक्स, वाई तथा जैड साझेदार हैं तथा 2 : 3 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते हैं। 1 अप्रैल, 2022 से उन्होंने भविष्य में लाभों को 3 : 2 : 1 के अनुपात में बाँटने का निर्णय लिया। लाभ-हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय खातों में दर्ज न किए गए फर्नीचर का लेखा, लेखा पुस्तकों में निम्न प्रकार से किया जाएगा :

1

- (A) साझेदारों के पूँजी खातों के नाम पक्ष में खतौनी करके।
- (B) पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम पक्ष में खतौनी करके।
- (C) पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में खतौनी करके।
- (D) साझेदारों के पूँजी खातों के जमा पक्ष में खतौनी करके।

8. (a) ऐसे ऋणपत्र जिनका भुगतान एक विशिष्ट अवधि की समाप्ति पर अथवा कम्पनी की जीवन अवधि में एकमुश्त अथवा किश्तों में किया जाता है, इस रूप में जाने जाते हैं :

1

- (A) रक्षित ऋणपत्र
- (B) विशिष्ट कूपन दर ऋणपत्र
- (C) मोचनीय ऋणपत्र
- (D) परिवर्तनीय ऋणपत्र

अथवा

(b) ऋणपत्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ?

1

- (A) ऋणपत्रों का निर्गमन नगद किया जा सकता है।
- (B) ऋणपत्रों का निर्गमन बट्टे पर नहीं किया जा सकता है।
- (C) ऋणपत्रों का निर्गमन संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में किया जा सकता है।
- (D) ऋणपत्रों का निर्गमन अधिमूल्य पर किया जा सकता है।





(b) X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 2 : 3 : 1. They decided to share future profits in the ratio of 3 : 2 : 1 with effect from 1st April, 2022. At the time of change of profit sharing ratio, unrecorded furniture will be recorded in the books of Accounts by : 1

- (A) Debiting it to Partners' Capital Account
- (B) Debiting it to Revaluation Account
- (C) Crediting it to Revaluation Account
- (D) Crediting it to Partners' Capital Account

8. (a) The debentures which are payable on the expiry of a specified period either in lump-sum or in instalments during the life time of the company are known as : 1

- (A) Secured debentures
- (B) Specific coupon rate debentures
- (C) Redeemable debentures
- (D) Convertible debentures

OR

(b) Which of the following statement is incorrect with respect to debentures ? 1

- (A) Debentures can be issued for cash.
- (B) Debenture cannot be issued at discount.
- (C) Debentures can be issued as collateral security.
- (D) Debentures can be issued at premium.





निम्न काल्पनिक परिस्थिति को पढ़िये तथा इसके आधार पर प्रश्न सं. 9 तथा 10 का उत्तर दीजिए :

नित्या, श्रेया तथा इशिता एक फर्म की साझेदार हैं। वे 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटती हैं। उनकी स्थायी पूँजी क्रमशः ₹ 1,80,000; ₹ 1,60,000 तथा ₹ 2,00,000 हैं। 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष में नित्या ने प्रत्येक तिमाही के अन्त में ₹ 7,500 का आहरण किया।

9. साझेदारी संलेख में पूँजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देने का प्रावधान है। इशिता की पूँजी पर ब्याज की राशि होगी : 1
- (A) ₹ 18,000 (B) ₹ 16,000
(C) ₹ 20,000 (D) ₹ 10,000
10. औसत महीनों की संख्या जिन पर आहरण पर ब्याज की गणना की जायेगी, होंगे : 1
- (A) 3½ महीने (B) 4½ महीने
(C) 7½ महीने (D) 6 महीने
11. ₹ 10 के एक समता अंश जिस पर पूरी राशि माँग ली गई थी तथा जिस पर ₹ 6 का भुगतान किया गया, का शेष राशि का भुगतान न करने पर हरण कर लिया गया। इसे निम्न में से किस न्यूनतम मूल्य पर पुनःनिर्गमित किया जा सकता है ? 1
- (A) ₹ 4 (B) ₹ 10
(C) ₹ 16 (D) ₹ 6
12. सममूल्य पर निर्गमित ₹ 10 प्रत्येक के 200 समता अंशों का ₹ 3 प्रति अंश की प्रथम याचना का भुगतान न करने पर हरण कर लिया गया। ₹ 2 प्रति अंश की अन्तिम याचना अभी माँगी नहीं गई थी। हरण करने पर कितनी राशि की खतौनी अंश पूँजी के नाम पक्ष में की जायेगी ? 1
- (A) ₹ 2,000 (B) ₹ 1,600
(C) ₹ 1,000 (D) ₹ 2,200





Read the following hypothetical situation and answer Question Nos. 9 and 10 on the basis of the same.

Nitya, Shreya and Ishita are partners in a firm. They share profits in the ratio of 5 : 3 : 2. Their fixed capitals are ₹ 1,80,000; ₹ 1,60,000 and ₹ 2,00,000 respectively. For the year ending 31st March, 2022, Nitya withdrew ₹ 7,500 at the end of every quarter.

9. The partnership deed provided that interest on capital will be allowed @ 10% p.a. The amount of interest on Ishita's capital will be : 1
- (A) ₹ 18,000 (B) ₹ 16,000
(C) ₹ 20,000 (D) ₹ 10,000
10. The average number of months for which interest on drawings will be calculated, will be : 1
- (A) 3½ months (B) 4½ months
(C) 7½ months (D) 6 months
11. An equity share of ₹ 10 fully called up on which ₹ 6 has been paid was forfeited for the non-payment of the balance amount. At which of the following minimum price can it be reissued ? 1
- (A) ₹ 4 (B) ₹ 10
(C) ₹ 16 (D) ₹ 6
12. 200 equity shares of ₹ 10 each issued at par were forfeited for non-payment of first call of ₹ 3 per share. Final call of ₹ 2 per share was not yet called. By which amount the share capital will be debited on forfeiture ? 1
- (A) ₹ 2,000 (B) ₹ 1,600
(C) ₹ 1,000 (D) ₹ 2,200





13. खुशी, नमिता तथा मानवी एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 2 : 3 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे । 30 जून, 2022 को खुशी की मृत्यु हो गई । साझेदारी संलेख में प्रवाधान था कि किसी भी साझेदार की मृत्यु के समय मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में उसके भाग की गणना पिछले तीन वर्षों के औसत लाभ में से ₹ 10,000 घटाकर की जायेगी ।

1

पिछले तीन वर्षों के लाभ थे :

वर्ष समाप्ति	लाभ/हानि (₹)
31 मार्च, 2020	1,20,000
31 मार्च, 2021	(50,000)
31 मार्च, 2022	1,70,000

मृत्यु की तिथि तक लाभ में खुशी का भाग था :

- (A) ₹ 35,000 (B) ₹ 9,583
(C) ₹ 28,750 (D) ₹ 8,750
14. क, ख तथा ग की साझेदारी फर्म के विघटन के समय संचित लाभ ₹ 40,000 को निम्न में से किस खाते में हस्तांतरित किया जाएगा ?
- (A) पुनर्मूल्यांकन खाता (B) वसूली खाता
(C) साझेदारों के पूँजी खाते (D) बैंक खाता

1

15. **अभिकथन (A) :** साझेदारी ऐसे लोगों के मध्य संबंध है जो व्यवसाय का लाभ बाँटने के लिए सहमत हुए हैं जिसका संचालन सभी द्वारा अथवा सभी के लिए किसी एक द्वारा किया जा सकता है ।

1

कारण (R) : यदि एक साझेदार समान प्रकृति का कोई व्यवसाय करता है तथा फर्म के साथ प्रतियोगिता करता है, तो वह उसका लेखा करेगा तथा व्यवसाय से अर्जित सभी लाभ का भुगतान फर्म को करेगा ।

निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

- (A) दोनों (A) तथा (R) सही हैं ।
(B) दोनों (A) तथा (R) गलत हैं ।
(C) दोनों (A) तथा (R) सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है ।
(D) दोनों (A) तथा (R) सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है ।





13. Khushi, Namita and Manvi were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 2 : 3. On 30th June, 2022, Khushi died. The partnership deed provided that on the death of a partner, her share of profit till the date of death was to be calculated on the basis of average profit of last three years less ₹ 10,000. 1

Profits for the last three years were :

Year ended	Profits/Loss (₹)
31 st March, 2020	1,20,000
31 st March, 2021	(50,000)
31 st March, 2022	1,70,000

Khushi's share of profit till the date of her death was :

- (A) ₹ 35,000 (B) ₹ 9,583
(C) ₹ 28,750 (D) ₹ 8,750
14. On dissolution of the partnership firm of A, B and C, the accumulated profits of ₹ 40,000 will be transferred to which of the following account ? 1
- (A) Revaluation Account (B) Realisation Account
(C) Partners' Capital Accounts (D) Bank Account
15. **Assertion (A)** : Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. 1
- Reason (R)** : If a partner carries on any business of the same nature and competing with that of the firm, he/she shall account for and pay to the firm all profit made by him/her in that business.
- Choose the correct option from the following :
- (A) Both (A) and (R) are correct.
(B) Both (A) and (R) are incorrect.
(C) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
(D) Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A).





16. (a) आयशा लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 1,10,000 अंशों का जिन्हें 20% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था, ₹ 2 प्रति अंश की प्रथम याचना तथा ₹ 3 प्रति अंश की अन्तिम याचना का भुगतान न करने पर हरण कर लिया। अंश हरण खाते के जमा पक्ष में खतौनी की जायेगी : 1
- (A) ₹ 5,50,000 (B) ₹ 7,70,000
(C) ₹ 2,20,000 (D) ₹ 5,00,000

अथवा

- (b) निम्न में से कौन सा कथन सही है ? 1
- (A) एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के अंश मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय नहीं होते।
(B) प्रदत्त पूँजी अभिदत्त पूँजी का वह भाग है जिसे माँगा गया है।
(C) संस्था के बहिर्नियमों में दी गई पूँजी से अधिक पूँजी कम्पनी एकत्रित नहीं कर सकती।
(D) पूँजी का वह नहीं माँगा गया भाग जिसे केवल कम्पनी के विघटन के समय ही माँगा जा सकता है, पूँजी संचय कहलाता है।

17. (a) तरुन, अभिषेक, कमल तथा विवेक एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 3 : 2 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते थे। 31 मार्च, 2022 को कमल सेवानिवृत्त हो गया। तरुन, अभिषेक तथा विवेक ने भविष्य में लाभ बराबर-बराबर बाँटने का निर्णय किया। कमल की सेवानिवृत्ति पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 9,00,000 किया गया।

अपनी गणना को स्पष्टता से दर्शाते हुए कमल की सेवानिवृत्ति पर ख्याति के लेखांकन की आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टि कीजिए। यह निर्णय लिया गया है कि ख्याति को फर्म की पुस्तकों में दर्शाया नहीं जाएगा। 3

अथवा

- (b) अतुल तथा गीता साझेदार थे तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते थे। ईरा को लाभ में 1/4वें भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया गया। ईरा अपनी पूँजी के रूप में ₹ 40,000 लाई। ख्याति, परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के पुनर्मूल्यांकन आदि से संबंधित सभी समायोजनों के पश्चात् अतुल तथा गीता की पूँजी क्रमशः ₹ 60,000 तथा ₹ 40,000 थी। यह सहमति हुई कि साझेदारों की पूँजी नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार होगी।

पुराने साझेदारों को भुगतान की जाने वाली अथवा उनके द्वारा लाई जाने वाली पूँजी की गणना कीजिए तथा इसके लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टि/प्रविष्टियाँ कीजिए। 3





16. (a) Aysha Ltd. forfeited 1,10,000 shares of ₹ 10 each issued at 20% premium for the non-payment of first call of ₹ 2 per share and final call of ₹ 3 per share. Share Forfeited Account will be credited with : 1
- (A) ₹ 5,50,000 (B) ₹ 7,70,000
(C) ₹ 2,20,000 (D) ₹ 5,00,000

OR

- (b) Which of the following statements is true ? 1
- (A) The shares of a public limited company are not freely transferable.
(B) Paid up capital is that part of the subscribed capital which has been called up.
(C) The company cannot raise more capital than the amount of capital as specified in the Memorandum of Association.
(D) The part of the uncalled capital which is called only in the event of winding up of the company is called Capital Reserve.

17. (a) Tarun, Abhishek, Kamal and Vivek were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5 : 3 : 2 : 2. Kamal retired on 31st March, 2022. Tarun, Abhishek and Vivek decided to share future profits equally. On Kamal's retirement goodwill of the firm was valued at ₹ 9,00,000. Showing your working clearly, pass the necessary journal entry for treatment of goodwill on Kamal's retirement. It was decided not to show goodwill in the books of the firm. 3

OR

- (b) Atul and Geeta were partners sharing profits in the ratio 3 : 2. Ira was admitted into the firm for 1/4th share of profits. Ira brought ₹ 40,000 as her capital. The capitals of Atul and Geeta after all adjustments relating to goodwill, revaluation of assets and liabilities etc. are ₹ 60,000 and ₹ 40,000 respectively. It is agreed that capitals should be according to the new profit sharing ratio.
Calculate the amount of actual cash to be paid off or brought in by the old partners. Pass the necessary journal entry/entries for the same. 3





18. (a) आशा, दिशा तथा राघव एक फर्म के साझेदार थे तथा 2 : 3 : 1 के अनुपात में लाभ बाँटते थे । साझेदारी समझौते के अनुसार राघव को ₹ 40,000 लाभ की गारंटी दी गई थी । 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष में फर्म का शुद्ध लाभ ₹ 1,20,000 था ।
31 मार्च, 2022, को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का लाभ-हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए । 3

अथवा

- (b) अखिल तथा निखिल साझेदार थे तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे । उनकी स्थायी पूँजी क्रमशः ₹ 1,00,000 तथा ₹ 80,000 थीं । पूँजी पर 6% वार्षिक दर से ब्याज की सहमति हुई । निखिल को ₹ 9,200 का वार्षिक वेतन दिया जाना था । वर्ष 2021-22 में पूँजी पर ब्याज की गणना से पूर्व परन्तु निखिल का वेतन लगाने के पश्चात् शुद्ध लाभ ₹ 1,20,000 था ।
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का लाभ-हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए । 3

19. आयुष तथा आरुषि साझेदार थे तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे । उन्होंने लाभ में 1/4वें भाग के लिए नवीन को एक साझेदार बनाया । फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के तीन वर्षों के क्रय के आधार पर करना था । फर्म का औसत शुद्ध लाभ ₹ 20,000 था । फर्म में ₹ 50,000 का पूँजी निवेश था तथा सामान्य प्रत्याय दर 10% थी । नवीन द्वारा लाये गए ख्याति प्रीमियम की राशि की गणना कीजिए । 3

20. कुबेर लिमिटेड ने अमृत लिमिटेड की ₹ 10,00,000 की परिसम्पत्तियाँ तथा ₹ 1,00,000 की देयताओं का क्रय ₹ 8,00,000 के क्रय मूल्य पर किया । कुबेर लिमिटेड ने ₹ 2,60,000 का भुगतान एक चेक के माध्यम से तथा शेष का भुगतान ₹ 100 प्रत्येक के 12% ऋणपत्रों को 10% बट्टे पर निर्गमित करके किया । कुबेर लिमिटेड की पुस्तकों में उपरोक्त लेनदेनों की रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए । 3

21. उन्नति लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के समता अंशों में विभक्त ₹ 8,00,000 की अधिकृत पूँजी के साथ पंजीकृत थी । कम्पनी ने 60,000 समता अंशों के निर्गमन के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु सूचीपत्र जारी किया । कम्पनी को 58,000 समता अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए । सभी याचनाएँ माँग ली गईं तथा प्राप्त हो गईं, केवल 3,000 अंशों के एक अंशधारक मनीत को छोड़कर जिसने ₹ 3 प्रति अंश की दूसरी तथा अन्तिम याचना का भुगतान नहीं किया था । इन अंशों का हरण कर लिया गया ।

(a) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III, भाग I के अनुसार स्थिति विवरण में अंश पूँजी दर्शाइए ।

(b) इसी के लिए “खातों के नोट्स” भी तैयार कीजिए । 4





18. (a) Asha, Disha and Raghav were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2 : 3 : 1. According to the partnership agreement, Raghav was guaranteed an amount of ₹ 40,000 as his share of profits. The net profit for the year ended 31st March, 2022 amounted to ₹ 1,20,000.

Prepare Profit and Loss Appropriation Account of the firm for the year ended 31st March, 2022. 3

OR

- (b) Akhil and Nikhil were partners sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2. Their fixed capitals were ₹ 1,00,000 and ₹ 80,000 respectively. Interest on capital was agreed @ 6% p.a. Nikhil was to be allowed an annual salary of ₹ 9,200. During the year 2021-22, the net profit prior to the calculation of interest on capital but after charging Nikhil's salary amounted to ₹ 1,20,000.

Prepare Profit and Loss Appropriation Account of the firm for the year ending 31st March, 2022. 3

19. Aayush and Aarushi are partners sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2. They admitted Naveen into partnership for 1/4th share. Goodwill of the firm was to be valued at three years' purchase of super profits. Average net profit of the firm was ₹ 20,000. Capital investment in the business was ₹ 50,000 and Normal Rate of Return was 10%. Calculate the amount of Goodwill premium brought by Naveen. 3

20. Kuber Ltd. purchased assets worth ₹ 10,00,000 and took over liabilities of ₹ 1,00,000 of Amrit Ltd. for a purchase consideration of ₹ 8,00,000. Kuber Ltd. paid ₹ 2,60,000 through a cheque and the balance was settled by issuing 12% debentures of ₹ 100 each at a discount of 10%. Pass necessary journal entries in the books of Kuber Ltd. for the above transactions. 3

21. Unnati Ltd. was registered with an authorised capital of ₹ 8,00,000 divided into equity shares of ₹ 10 each. The company issued a prospectus inviting applications for 60,000 equity shares. The company received applications for 58,000 equity shares. All calls were made and were duly received except the second and final call of ₹ 3 per share on 3,000 shares held by Manit. These shares were forfeited.

- (a) Present the share capital in the Balance Sheet of the company as per Schedule III, Part I of the Companies Act, 2013.
(b) Also prepare "Notes to Accounts" for the same. 4





22. क, ख तथा ग एक प्रिंटर उत्पादक फर्म के साझेदार थे। वे 2 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे।
31 मार्च, 2022 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था :

31 मार्च, 2022 को क, ख तथा ग का स्थिति विवरण

देयताएँ	राशि (₹)	परिसम्पत्तियाँ	राशि (₹)
पूँजी		भूमि तथा भवन	3,00,000
क - 1,50,000		संयन्त्र तथा मशीनरी	2,50,000
ख - 2,00,000		देनदार	80,000
ग - <u>2,00,000</u>	5,50,000	स्टॉक	70,000
सामान्य संचय	2,50,000	रोकड़ हस्ते	60,000
लेनदार	30,000	बैंक में नगद	90,000
देय बिल	20,000		
	8,50,000		8,50,000

30 जून, 2022 को 'ख' की मृत्यु हो गई। साझेदारी संलेख के अनुसार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को निम्न देय था :

- ख्याति में उसके भाग के ₹ 24,000।
- पूँजी पर 12% वार्षिक दर से ब्याज।
- मृत्यु की तिथि तक लाभ में उसका भाग जिसकी गणना विक्रय के आधार पर की जायेगी।
1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2022 तक विक्रय ₹ 1,25,000 थे। 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का विक्रय तथा लाभ क्रमशः ₹ 10,00,000 तथा ₹ 2,50,000 था। उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए 'ख' का पूँजी खाता तैयार कीजिए।

4





22. A, B and C were partners in a printer manufacturing firm. They were sharing profits and losses in the ratio of 2 : 2 : 1. On 31st March, 2022 their Balance Sheet was as follows :

Balance Sheet of A, B and C as on 31st March, 2022

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Capitals :		Land and Building	3,00,000
A – 1,50,000		Plant and Machinery	2,50,000
B – 2,00,000		Debtors	80,000
C – <u>2,00,000</u>	5,50,000	Stock	70,000
General Reserve	2,50,000	Cash in hand	60,000
Creditors	30,000	Cash at Bank	90,000
Bills Payable	20,000		
	8,50,000		8,50,000

B died on 30th June, 2022. According to the partnership deed, his legal representatives are entitled to :

- (i) ₹ 24,000 for his share of Goodwill.
- (ii) Interest on capital @ 12% p.a.
- (iii) His share of profit till the date of death calculated on the basis of sales. The sales from 1st April, 2022 to 30th June, 2022 were ₹ 1,25,000. The sales and profits of the firm for the year ending 31st March, 2022 were ₹ 10,00,000 and ₹ 2,50,000 respectively.

Prepare B's Capital Account to be rendered to his legal representatives. 4





23. (a) कमल, राहुल तथा नीरज एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 31 मार्च, 2022 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था :

31 मार्च, 2022 को कमल, राहुल तथा नीरज का स्थिति विवरण

देयताएँ	राशि (₹)	परिसम्पत्तियाँ	राशि (₹)
पूँजी :		भूमि तथा भवन	1,70,000
कमल 1,20,000		संयन्त्र तथा मशीनरी	2,60,000
राहुल 1,20,000		स्टॉक	1,00,000
नीरज <u>1,20,000</u>	3,60,000	देनदार	80,000
सामान्य संचय	1,20,000	नगद	50,000
विभिन्न लेनदार	1,80,000		
	6,60,000		6,60,000

उपरोक्त तिथि को राहुल सेवानिवृत्त हो गया तथा निम्न शर्तों पर सहमति हुई :

- फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 3,50,000 किया गया।
- विभिन्न लेनदारों में सम्मिलित ₹ 10,000 की एक मद थी जिसका दावा नहीं किया जाना था। अतः अपलिखित कर दिया गया। स्टॉक का मूल्यांकन ₹ 90,000 किया गया।
- नई फर्म की पूँजी ₹ 2,10,000 निर्धारित की गई तथा इसका समायोजन शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में करना था। इसके लिए आवश्यकतानुसार रोकड़ लाई जायेगी अथवा इसका भुगतान किया जायेगा।
- राहुल को देय राशि का हस्तांतरण उसके ऋण खाते में कर दिया जायेगा।

राहुल की सेवानिवृत्ति पर पुनर्मूल्यांकन खाता तथा साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए।

6

अथवा





23. (a) Kamal, Rahul and Neeraj were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 3 : 2. On 31st March, 2022, their Balance Sheet was as under :

Balance Sheet of Kamal, Rahul and Neeraj as on 31st March, 2022

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Capitals :		Land and Building	1,70,000
Kamal 1,20,000		Plant and Machinery	2,60,000
Rahul 1,20,000		Stock	1,00,000
Neeraj <u>1,20,000</u>	3,60,000	Debtors	80,000
General Reserve	1,20,000	Cash	50,000
Sundry Creditors	1,80,000		
	6,60,000		6,60,000

On the above date, Rahul retired and following terms were agreed upon :

- (i) Goodwill of the firm was valued at ₹ 3,50,000.
- (ii) An item of ₹ 10,000 included in Sundry creditors is not likely to be claimed and hence written off. Stock was valued at ₹ 90,000.
- (iii) Capital of the new firm was fixed at ₹ 2,10,000 and the same will be adjusted in the profit sharing ratio of the remaining partners. For this purpose the required cash will be brought in or paid off as the case may be.
- (iv) Amount payable to Rahul will be transferred to his loan account.

Prepare Revaluation Account and Partners' Capital Accounts on Rahul's retirement.

6

OR





- (b) आशीष तथा विशेष साझेदार थे तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 31 मार्च, 2022 को उनका स्थिति 31 मार्च, 2022 को आशीष तथा विशेष का स्थिति विवरण निम्न था :

31 मार्च, 2022 को आशीष तथा विशेष का स्थिति विवरण

देयताएँ	राशि (₹)	परिसम्पत्तियाँ	राशि (₹)
लेनदार	30,000	बैंक में नगद	50,000
अदत्त बिजली बिल	20,000	देनदार	80,000
पूँजी :		घटा : डूबत ऋणों के लिए प्रावधान	<u>2,000</u>
आशीष 3,00,000		स्टॉक	1,12,000
विशेष <u>2,00,000</u>	5,00,000	मशीनरी	3,00,000
		लाभ-हानि खाता	10,000
	5,50,000		5,50,000

1 अप्रैल, 2022 को लाभ में ¼वें भाग के लिए निम्न शर्तों पर मान्या को एक नया साझेदार बनाया गया :

- मान्या अपनी पूँजी के लिए ₹ 1,00,000 तथा ख्याति प्रीमियम के अपने भाग के लिए ₹ 50,000 नगद लाएगी।
 - अदत्त बिजली बिल का भुगतान कर दिया जायेगा।
 - स्टॉक का मूल्यांकन ₹ 12,000 अधिक पाया गया।
- मान्या के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

6

24. (a) वाणी लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 1,00,000 समता अंशों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए आवेदन आमन्त्रित किए। राशि का भुगतान निम्न प्रकार से देय था :
- आवेदन तथा आबंटन पर – ₹ 4 प्रति अंश (₹ 1 प्रीमियम सहित)
- प्रथम याचना पर – ₹ 4 प्रति अंश
- दूसरी एवं अन्तिम याचना पर – ₹ 3 प्रति अंश
- 1,50,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए तथा सभी आवेदकों को आनुपातिक आधार पर आबंटन कर दिया गया। अतिरिक्त आवेदन राशि का समायोजन याचनाओं पर देय राशि में कर लिया गया। एक अंशधारक, पार्थ, जिसने 600 अंशों के लिए आवेदन किया था, ने प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया। उसके अंशों का हरण कर लिया गया। दूसरी तथा अन्तिम याचना अभी तक माँगी नहीं गई थी। हरण किए गए अंशों में से आधे अंशों को ₹ 8 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पुनः निर्गमित कर दिया गया।

जहाँ आवश्यक हो अदत्त याचना खाता तथा पूर्वदत्त याचना खाता खोलकर उपरोक्त लेनदेनों के लिए वाणी लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

6

अथवा





- (b) Ashish and Vishesh were partners sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2. Their Balance Sheet as at 31st March, 2022 was as under :

Balance Sheet of Ashish and Vishesh as at 31st March, 2022

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Creditors	30,000	Cash at Bank	50,000
Outstanding electricity bill	20,000	Debtors 80,000 Less : provision for bad debts <u>2,000</u>	78,000
Capitals :		Stock	1,12,000
Ashish 3,00,000		Machinery	3,00,000
Vishesh <u>2,00,000</u>	5,00,000	Profit and Loss A/c	10,000
	5,50,000		5,50,000

On 1st April, 2022, Manya was admitted into the firm with 1/4th share in the profits on the following terms :

- Manya will bring ₹ 1,00,000 as her capital and ₹ 50,000 as her share of goodwill premium in cash.
- Outstanding electricity bill will be paid off.
- Stock was found over valued by ₹ 12,000.

6

Pass the necessary journal entries in the books of the firm on Manya's admission.

24. (a) Vani Limited invited applications for issuing 1,00,000 equity shares of ₹ 10 each at a premium of 10%. The amounts were payable as under :
- On Application and Allotment – ₹ 4 per share (including premium ₹1)
On first call – ₹ 4 per share
On second and final call – ₹ 3 per share
- Applications for 1,50,000 shares were received and pro-rata allotment was made to all the applicants.
- Excess application money was adjusted towards sums due on calls. Parth, a shareholder who had applied for 600 shares did not pay the first call. His shares were forfeited. The second and final call was not yet made. Half of the forfeited shares were reissued at ₹ 8 per share fully paid up.
- Journalise the above transactions in the books of Vani Limited by opening calls in arrears and calls in advance account wherever necessary.

6

OR

67/5/2



Page 27

P.T.O.





(b) निम्न परिस्थितियों में अंशों के हरण तथा हरण किए गए अंशों के पुनःनिर्गमन के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए :

(i) विपिन लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 10,000 अंशों का जिन्हें ₹ 1 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था, ₹ 2 प्रति अंश की दूसरी तथा अन्तिम याचना का भुगतान न करने पर हरण कर लिया। इन अंशों में से 60% अंशों को ₹ 7 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पुनःनिर्गमित कर दिया गया।

3

(ii) दीपक लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 800 अंशों का जिन पर ₹ 8 प्रति अंश माँगे गए थे, ₹ 3 प्रति अंश की प्रथम याचना का भुगतान न करने पर हरण कर लिया। सभी हरण किए गए अंशों को ₹ 12 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पुनःनिर्गमित कर दिया गया।

3

25. विभिन्न परिसम्पत्तियों (रोकड़ को छोड़कर) तथा तृतीय पक्ष देयताओं का वसूली खाते में हस्तांतरण करने के पश्चात् 31 मार्च, 2022 को मीता तथा सोनू की साझेदारी फर्म के विघटन पर निम्न लेनदेनों की आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए :

(a) ₹ 90,000 के लेनदारों ने अपने दावे के पूर्ण भुगतान में ₹ 2,00,000 की भूमि तथा भवन ले लिया।

(b) सोनू ने ₹ 50,000 के देनदारों को ₹ 40,000 में ले लिया।

(c) विघटन व्यय ₹ 1800 थे जिसका भुगतान सोनू ने किया।

(d) पुस्तकों में लेखा नहीं की गई एक मशीन को मीता ने ₹ 11,000 में ले लिया, जबकि इसका संभावित बाज़ार मूल्य ₹ 15,000 था।

(e) सोनू ने ₹ 20,000 के अपनी पत्नी के ऋण का भुगतान करने की सहमति दी।

(f) विघटन पर ₹ 50,000 लाभ हुआ।

6

26. चिरंजीवी लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 2,000, 10% ऋणपत्रों का निर्गमन किया। निम्न स्थितियों में ऋणपत्रों के निर्गमन की आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए :

(a) जब ऋणपत्रों का निर्गमन 10% प्रीमियम पर किया गया तथा इनका शोधन 5% के प्रीमियम पर करना है।

(b) जब ऋणपत्रों का निर्गमन 5% बट्टे पर किया गया तथा इनका शोधन 10% प्रीमियम पर करना है।

(c) जब ऋणपत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया तथा इनका शोधन 10% प्रीमियम पर करना है।

6





- (b) Pass necessary journal entries for forfeiture and reissue of forfeited shares in the following cases :
- (i) Vipin Ltd. forfeited 10,000 shares of ₹ 10 each issued at a premium of ₹ 1 per share, for non-payment of second and final call of ₹ 2 per share. Out of these, 60% of the shares were reissued at ₹ 7 per share fully paid up. 3
- (ii) Deepak Ltd. forfeited 800 shares of ₹ 10 each, ₹ 8 per share called up, for non-payment of first call of ₹ 3 per share. All the forfeited shares were reissued for ₹ 12 per share fully paid. 3
25. Pass necessary Journal Entries for the following transactions on the dissolution of a partnership firm of Mita and Sonu on 31st March, 2022 after the various assets other than cash and third party liabilities have been transferred to the Realisation Account.
- (a) Creditors of ₹ 90,000 took over Land and Building of ₹ 2,00,000 in full settlement of their claim.
- (b) Sonu took over debtors amounting to ₹ 50,000 at ₹ 40,000.
- (c) Realisation expenses ₹ 1800 were paid by Sonu.
- (d) A machine which was not recorded in the books was taken over by Mita at ₹ 11,000 while its expected market value was ₹ 15,000.
- (e) Sonu agreed to pay off his wife's loan of ₹ 20,000.
- (f) Profit on dissolution amounted to ₹ 50,000. 6
26. Chiranjeevi Limited issued 2,000, 10% debentures of ₹ 100 each. Pass the necessary Journal entries for the issue of debentures in the following cases :
- (a) When debentures were issued at 10% premium, redeemable at 5% premium.
- (b) When debentures were issued at 5% discount, redeemable at 10% premium.
- (c) When debentures were issued at par, redeemable at a premium of 10%. 6





भाग – ख

विकल्प – I

(वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

27. (a) निम्न में से कौन सा लेनदेन का परिणाम रोकड़ प्रवाह नहीं होगा ? 1

- (A) मशीनरी का क्रय
(B) निवेशों का विक्रय
(C) समता अंशों के निर्गमन द्वारा मशीनरी का अधिग्रहण
(D) ऋणपत्रों का शोधन

अथवा

(b) रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किए जाने के उद्देश्य से स्तम्भ – II में दिए गए लेनदेनों को स्तम्भ-I में दी गई उनकी सही गतिविधियों से मिलान कीजिए : 1

स्तम्भ – I

स्तम्भ – II

- | | |
|---------------------|--|
| (a) निवेश गतिविधि | (i) ब्याज का भुगतान |
| (b) वित्तीय गतिविधि | (ii) ख्याति का क्रय |
| (c) प्रचालन गतिविधि | (iii) वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त रोकड़ |
- (a) (b) (c)
(A) (iii) (i) (ii)
(B) (ii) (i) (iii)
(C) (i) (iii) (ii)
(D) (ii) (iii) (i)

28. (a) निम्न में से कौन से वित्तीय विवरण विश्लेषण के औज़ार (विधियाँ) नहीं हैं ? 1

- | | |
|------------------------|----------------------|
| (i) रोकड़ प्रवाह विवरण | (ii) आय विवरण |
| (iii) स्थिति विवरण | (iv) अनुपात विश्लेषण |
- (A) (i) तथा (ii) (B) (ii) तथा (iv)
(C) (ii) तथा (iii) (D) (iii) तथा (iv)

अथवा

67/5/2



Page 30





PART – B
OPTION – I
(Analysis of Financial Statements)

27. (a) Which of the following transaction will result in no flow of cash ? 1
- (A) Purchase of machinery
(B) Sale of investments
(C) Acquisition of machinery by issue of equity shares
(D) Redemption of debentures

OR

- (b) Match the transactions given in Column – II with their correct category given in Column – I for the purpose of preparation of ‘Cash Flow Statement’. 1

Column – I	Column – II
(a) Investing Activity	(i) Interest paid
(b) Financing Activity	(ii) Purchase of Goodwill
(c) Operating Activity	(iii) Cash receipts from sale of goods
(a) (b) (c)	
(A) (iii) (i) (ii)	
(B) (ii) (i) (iii)	
(C) (i) (iii) (ii)	
(D) (ii) (iii) (i)	

28. (a) Which of the following are not tools of Financial Analysis ? 1
- (i) Cash Flow Statement (ii) Income Statement
(iii) Balance Sheet (iv) Ratio Analysis
- (A) (i) and (ii) (B) (ii) and (iv)
(C) (ii) and (iii) (D) (iii) and (iv)

OR





- (b) निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ? 1
- (A) तरलता अनुपातों की गणना व्यवसाय की लघुकालीन शोधनक्षमता को मापने के लिए की जाती है ।
- (B) चालू अनुपात को अम्ल जाँच अनुपात के नाम से भी जाना जाता है ।
- (C) ऋणशोधन अनुपातों की गणना व्यवसाय द्वारा दीर्घकाल में इसके ऋणों के भुगतान की क्षमता का निर्धारण करने के लिए की जाती है ।
- (D) स्वामित्व अनुपात स्वामियों की निधियों का शुद्ध / कुल परिसम्पत्तियों से सम्बंध दर्शाता है ।
29. 'रोकड़ प्रवाह विवरण' तैयार करने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ प्रचालन गतिविधियाँ हैं ? 1
- (i) प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभांश तथा ब्याज ।
- (ii) कर्मचारी हितलाभ व्ययों का भुगतान ।
- (iii) रॉयल्टी तथा शुल्क से प्राप्त नगदी ।
- (iv) मशीनरी के क्रय के लिए अंशों का निर्गमन ।
- (A) (i), (ii) तथा (iii) (B) (ii), (iii) तथा (iv)
- (C) (i), (ii) तथा (iv) (D) (ii) तथा (iii)
30. एक्स लिमिटेड की चालू सम्पत्तियाँ ₹ 2,00,000 तथा चालू देयताएँ ₹ 1,50,000 हैं । यदि इसका कार्यशील पूँजी आवर्त अनुपात 6 गुना है, तो इसकी प्रचालन से आगम होगी : 1
- (A) ₹ 2,00,000 (B) ₹ 3,00,000
- (C) ₹ 2,50,000 (D) ₹ 1,50,000
31. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III, भाग I के अनुसार निम्न मदों को कम्पनी के स्थिति विवरण में किन मुख्य शीर्षकों तथा उप-शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाया जायेगा : 3
- (a) चैक तथा ड्राफ्ट हस्ते
- (b) कार्य प्रगति पर
- (c) लाभ-हानि विवरण का शेष
32. 'यह एक तकनीक है जिसमें गणितीय संबंधों के उपयोग द्वारा आँकड़ों को पुनःवर्गीकृत किया जाता है ।' इस तकनीक की पहचान कीजिए तथा पहचान की गई तकनीक के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए । 3





- (b) Which one of the following statement is incorrect ? 1
- (A) Liquidity ratios are calculated to measure the short term solvency of the business.
- (B) Current ratio is also known as Acid Test Ratio.
- (C) Solvency ratios are calculated to determine the ability of the business to service its debt in the long run.
- (D) Proprietary ratio expresses the relationship of proprietor's funds to net assets / total assets.
29. Which of the following activities are operating activities for the purpose of preparing 'Cash flow statement' ? 1
- (i) Dividend and Interest received on securities.
- (ii) Payment of employee benefit expenses.
- (iii) Cash receipts from royalties and fees.
- (iv) Issue of shares against purchase of machinery.
- (A) (i), (ii) and (iii) (B) (ii), (iii) and (iv)
- (C) (i), (ii) and (iv) (D) (ii) and (iii)
30. The current assets of X Ltd. are ₹ 2,00,000 and its current liabilities are ₹ 1,50,000. If, its working capital turnover ratio is 6 times, its revenue from operations will be : 1
- (A) ₹ 2,00,000 (B) ₹ 3,00,000
- (C) ₹ 2,50,000 (D) ₹ 1,50,000
31. Under which major heads and sub-heads will the following items be presented in the Balance Sheet of a Company as per Schedule III, Part I of the Companies Act, 2013 : 3
- (a) Cheques-Drafts on hand
- (b) Work-in-Progress
- (c) Balance in Statement of Profit and Loss
32. 'It is a technique which involves regrouping of data by application of arithmetical relationships.' Identify the technique and state any two advantages of the technique identified. 3





33. (a) निम्न सूचना से आरम्भिक तथा अन्तिम स्टॉक की गणना कीजिए :

स्टॉक आवर्त अनुपात – 4 बार

सकल लाभ = प्रचालन से आगम का 20%

प्रचालन से आगम = ₹ 10,00,000

आरम्भिक स्टॉक, अन्तिम स्टॉक का 25% है ।

4

अथवा

(b) जैड लिमिटेड का ऋण-समता अनुपात 2 : 1 है । कारण सहित बताइए कि निम्न लेनदेनों से ऋण-समता अनुपात बढ़ेगा, घटेगा अथवा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा :

(i) ₹ 3,00,000, 9% ऋणपत्रों का समता अंशों में परिवर्तन ।

(ii) देनदारों से ₹ 1,00,000 की नगद प्राप्ति ।

(iii) ₹ 10,00,000 के 11% ऋणपत्रों का शोधन ।

(iv) ₹ 4,00,000 के माल का उधार क्रय ।

4

34. निम्न काल्पनिक कथन को पढ़िए तथा उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

वर्ष 2019 में अदिति ने 'फिज्ज लिमिटेड' नाम का अपना स्टार्ट-अप शुरू किया । फिज्ज लिमिटेड एक जैविक जूस निकालने वाली इकाई है । स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण लगातार कई वर्षों से उसका लाभ बढ़ रहा है ।

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फिज्ज लिमिटेड के स्थिति विवरण से निम्न सूचना उद्धरित की गई :

6

	31 मार्च, 2022 (₹)	31 मार्च, 2021 (₹)
समता अंश पूंजी	90,00,000	60,00,000
11% ऋणपत्र	30,00,000	50,00,000
मशीनरी (लागत मूल्य पर)	28,00,000	20,00,000
मशीनरी पर एकत्रित मूल्यहास	90,000	60,000





33. (a) From the following information, calculate the value of opening and closing inventory :

Inventory Turnover Ratio – 4 times

Gross Profit = 20% on Revenue from operations

Revenue from operations = ₹ 10,00,000

Opening inventory is 25% of the inventory at the end.

4

OR

- (b) Debt-Equity Ratio of Z Ltd. is 2 : 1. State with reason whether the following transactions will improve, decline or will not change the debt-equity ratio :

(i) Conversion of ₹ 3,00,000, 9% debentures into equity shares.

(ii) Cash received from debtors ₹ 1,00,000.

(iii) Redemption of ₹ 10,00,000, 11% debentures.

(iv) Purchase of goods on credit ₹ 4,00,000.

4

34. Read the following hypothetical text and answer the questions given below on the basis of the same :

Aditi, initiated her start-up 'Fizz Ltd.' in 2019. 'Fizz Ltd.' is an organic juice extracting unit. Its profits are increasing year-after-year because of the increasing awareness towards health.

6

Following information has been extracted from the Balance Sheet of 'Fizz Ltd.' for the year ended 31st March, 2022 :

	31 st March, 2022 (₹)	31 st March, 2021 (₹)
Equity Share Capital	90,00,000	60,00,000
11% Debentures	30,00,000	50,00,000
Machinery (at cost)	28,00,000	20,00,000
Accumulated Depreciation on Machinery	90,000	60,000





अतिरिक्त सूचना :

- (i) वर्ष के दौरान ₹ 4,00,000 लागत की एक मशीन का विक्रय ₹ 30,000 के लाभ पर किया गया ।
 - (ii) वर्ष में मशीनरी पर लगाया गया मूल्यहास ₹ 50,000 था ।
 - (iii) 11% ऋणपत्रों पर भुगतान किए गए ब्याज की राशि ₹ 5,50,000 थी ।
 - (iv) समता अंशों पर ₹ 3,00,000 के लाभांश का भुगतान किया गया ।
 - (v) ऋणपत्रों का शोधन 31 मार्च, 2022 को 10% प्रीमियम पर किया गया ।
- ‘फिज्ज लिमिटेड’ की ‘निवेश गतिविधियों’ तथा ‘वित्तीय गतिविधियों’ से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए ।

भाग – ख

विकल्प – II

(अभिकलित्र लेखांकन)

27. ऐसे कोड जिनमें अक्षर (अल्फाबेट्स) अथवा संक्षेपाक्षर सम्मिलित हों, कहलाते हैं : 1
- (A) क्रमिक (सीक्वेंशियल) कोड्स (B) खण्ड (ब्लॉक) कोड्स
(C) संख्या कोड्स (D) स्मृति सहायक (मनेमोनिक) कोड्स
28. (a) एम एस ऐक्सस में एक क्षेत्र (फील्ड) नाम लिखने के लिए उपयोग किए जा सकने वाले अधिकतम समुच्चयों (करेक्टर्स) की संख्या है : 1
- (A) 28 (B) 32
(C) 64 (D) 104
- अथवा
- (b) वर्कशीट में निष्पादित की गई अन्तिम क्रिया को उलटने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड दी जाती है ? 1
- (A) अनडू (B) कट
(C) पेस्ट (D) रीडू
29. निम्न में से कौन सा पिवट टेबल का लाभ नहीं है ? 1
- (A) आँकड़ों का छाना जाना (निस्यंदन)
(B) उपभोक्ता मैत्रीपूर्ण
(C) स्तम्भ को पंक्ति तथा पंक्ति को स्तम्भ में ले जाना
(D) आँकड़ों की बड़ी मात्रा का सारांश नहीं कर सकता है ।





Additional Information :

- (i) During the year, a machine costing ₹ 4,00,000 was sold at a gain of ₹ 30,000.
 - (ii) Depreciation charged on machinery during the year was ₹ 50,000.
 - (iii) Interest paid on 11% debentures amounted to ₹ 5,50,000.
 - (iv) Dividend of ₹ 3,00,000 was paid on equity shares.
 - (v) Debentures were redeemed at a premium of 10% on 31st March, 2022.
- Calculate cash flows of 'Fizz Ltd.' from 'Investing Activities' and 'Financing Activities.'

PART – B
OPTION – II
(Computerised Accounting)

27. Codes comprising of alphabets or abbreviation are known as _____. 1
- (A) Sequential codes (B) Block codes
(C) Number codes (D) Mnemonic codes
28. (a) Maximum number of characters that can be used to write a field name in MS Access is : 1
- (A) 28 (B) 32
(C) 64 (D) 104
- OR**
- (b) Which of the following command reverses the last action performed in the worksheet ? 1
- (A) Undo (B) Cut
(C) Paste (D) Redo
29. Which of the following is not the advantage of Pivot table ? 1
- (A) Filtering of data
(B) User-friendly
(C) Moving rows to columns and columns to rows
(D) Cannot summarise large amount of data





30. (a) निम्न में से कौन सा आई-एफ कार्य (फंक्शन) का तर्क (आरगुमेंट) नहीं है ? 1
- (A) मूल्य-यदि-सत्य (वैल्यू-इफ-ट्रू)
(B) मूल्य – जब – असत्य (वैल्यू – वैन – फॉल्स)
(C) मूल्य – यदि – असत्य (वैल्यू – इफ – फॉल्स)
(D) तार्किक परीक्षा (लॉजिकल टेस्ट)

अथवा

- (b) जब एक नयी वर्कबुक का सृजन किया जाता है तो कितनी रिक्त वर्कशीटें दिखाई देती हैं ? 1
- (A) तीन (B) चार
(C) एक (D) दो

31. लेखांकन सूचना प्रणाली की निम्न उप-प्रणालियों को समझाइए :

- (a) रोकड़ तथा बैंक उप-प्रणाली
(b) विक्रय तथा प्राप्य खाते उप-प्रणाली 3

32. 'संख्या स्वरूपण', 'प्रतिशत' तथा 'तिथियों' को आँकड़ा स्वरूपण विधियों के रूप में समझाइए । 3

33. (a) लेखांकन चक्र को परिभाषित कीजिए तथा एक लेखांकन चक्र में सम्मिलित अवस्थाओं को समझाइए । 4

अथवा

- (b) अभिकलित्र लेखांकन प्रणाली के सुरक्षात्मक कार्य के रूप में 'पासवर्ड सुरक्षा' तथा 'डाटा ऑडिट' का अर्थ स्पष्ट कीजिए । 4

34. उस अशुद्धि का नाम बताइए जो तब प्रकट होती है जब सेल संदर्भ (रैफरेंस) वैध नहीं होता । उल्लेख कीजिए कि यह अशुद्धि कैसे संशोधित की जा सकती है । 6





30. (a) Which of these is not a argument of the IF function ? **1**
(A) Value-if-true (B) Value-when-false
(C) Value-if-false (D) Logical test

OR

- (b) How many blank worksheets are shown when a new workbook is created ? **1**
(A) Three (B) Four
(C) One (D) Two
31. Explain the following sub-systems of Accounting Information System : **3**
(a) Cash and Bank Sub-system
(b) Sales and Accounts Receivable Sub-system

32. Explain – ‘Number formatting’, ‘Percentages’ and ‘Dates’ as data formatting tools. **3**

33. (a) Define Accounting cycle and state the phases involved in an Accounting cycle. **4**

OR

- (b) Explain the meaning of ‘Password Security’ and ‘Data Audit’ as security features of Computerised Accounting System. **4**
34. Name the error which appears when the cell reference is not valid. State how this error can be corrected. **6**
-





67/5/2 **257 B** ~~~~~

Page 40

MARKING SCHEME
STRICTLY CONFIDENTIAL
(FOR INTERNAL AND RESTRICTED USE ONLY)
SENIOR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, 2023
SUBJECT NAME: ACCOUNTANCY (Subject Code 055)
QUESTION PAPER CODE 67/5/2

General Instructions: -

- 1 You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully
- 2 **“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”**
- 3 Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them.**
- 4 The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
- 5 The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators
- 6 Evaluators will mark(✓) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓)while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**
- 7 If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly
- 8 If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly



- 9 If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note “**Extra Question**”.
- 10 No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
- 11 A full scale of marks **80** has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
- 12 Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines)
- 13 Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
- Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
 - Giving more marks for an answer than assigned to it.
 - Wrong totaling of marks awarded on an answer.
 - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
 - Wrong question wise totaling on the title page.
 - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
 - Wrong grand total.
 - Marks in words and figures not tallying/not same.
 - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
 - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
 - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
- 14 While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) marks
- 15 Any un assessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
- 16 The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “**Guidelines for spot Evaluation**” before starting the actual evaluation.
- 17 Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
- 18 The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.



PART A (ACCOUNTING FOR PARTNERSHIP FIRMS AND COMPANIES)																																
1	<p>(a) Q. Manas and Mili are partners</p> <p>Ans. (D) -- ₹ 1,50,000</p> <p style="text-align: center;"><u>OR</u></p> <p>(b) Q. Mini and Mansi are partners</p> <p>Ans. (D) -- 2:2:3</p>	<p>1 mark</p> <p><u>OR</u></p> <p>1 mark</p>																														
2	<p>Q. Nita, Suman and Harish</p> <p>Ans. (A) -- Suman's Loan Account</p>	<p>1 mark</p>																														
3	<p>Q. Premier Auto Ltd</p> <p>Ans. (D) -- 4,000</p>	<p>1 mark</p>																														
4	<p>Q. Aditya, Abhinav and Ankit were partners</p> <p>Ans. (A) -- ₹ 42,000</p>	<p>1 mark</p>																														
5	<p>Q. Indu, Vijay and Pawan were partners</p> <p>Ans. (D)</p> <p style="text-align: center;">JOURNAL</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Date</th> <th style="width: 45%;">Particulars</th> <th style="width: 10%;">L.F.</th> <th style="width: 15%;">Dr. Amount (₹)</th> <th style="width: 20%;">Cr. Amount (₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Investment Fluctuation Reserve A/c Dr.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">80,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">To Investments A/c</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">To Indu's Capital A/c</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">28,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">To Vijay's Capital A/c</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">21,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">To Pawan's Capital A/c</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">21,000</td> </tr> </tbody> </table>	Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (₹)	Cr. Amount (₹)		Investment Fluctuation Reserve A/c Dr.		80,000			To Investments A/c			10,000		To Indu's Capital A/c			28,000		To Vijay's Capital A/c			21,000		To Pawan's Capital A/c			21,000	<p>1 mark</p>
Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (₹)	Cr. Amount (₹)																												
	Investment Fluctuation Reserve A/c Dr.		80,000																													
	To Investments A/c			10,000																												
	To Indu's Capital A/c			28,000																												
	To Vijay's Capital A/c			21,000																												
	To Pawan's Capital A/c			21,000																												
6	<p>(a) Q. Amit, Sumit and Kiara are partners</p> <p>Ans. (A) -- ₹ 1,20,000</p> <p style="text-align: center;"><u>OR</u></p> <p>(b) Q. P, Q and R are partners</p> <p>Ans. (B) –</p>	<p>1 mark</p> <p><u>OR</u></p> <p>1 mark</p>																														



JOURNAL					
Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (₹)	Cr. Amount (₹)	
	P's Current A/c To Q's Current A/c To R's Current A/c	Dr.	3,000	2,000 1,000	
7	(a) Q. L, M and N are partners				
	Ans. (D)				
JOURNAL					
Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (₹)	Cr. Amount (₹)	
	General Reserve A/c Profit and Loss A/c To L's Capital A/c To M's Capital A/c To N's Capital A/c	Dr. Dr.	2,00,000 4,00,000	3,00,000 1,80,000 1,20,000	1 mark
<u>OR</u>					
	(b) Q. X, Y and Z are partners				
	Ans. (C) -- Crediting it to Revaluation Account				1 mark
8	(a) Q. The debentures which are				1 mark
	Ans. (C) -- Redeemable Debentures				
<u>OR</u>					
	(b) Q. Which of the following statement is incorrect				1 mark
	Ans. (B) -- Debentures cannot be issued at discount				
Read the following hypothetical situation					
9	Q. The partnership deed provided				1 mark
	Ans. (C) -- ₹ 20,000				
10	Q. The average number of months				1 mark
	Ans. (B) -- 4 ½ months				
11	Q. An equity share of				1 mark
	Ans. (A) -- ₹ 4				

12	Q. 200 equity shares of	1 mark																														
	Ans. (B) -- ₹ 1,600																															
13	Q. Khushi, Namita and Manvi were partners	1 mark																														
	Ans. (D) -- ₹ 8,750																															
14	Q. On dissolution of the partnership firm.....	1 mark																														
	Ans. (C) – Partners' Capital Accounts																															
15	Q. Assertion (A) : Partnership is the	1 mark																														
	Ans. (D) -- Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A)																															
16	(a) Q. Aysha Ltd forfeited	1 mark																														
	Ans. (A) -- ₹ 5,50,000																															
	OR	OR																														
	(b) Q. Which of the following statements is true	1 mark																														
	Ans. (C) -- The company cannot raise more capital than the amount of capital as specified in the Memorandum of Association																															
17	(a) Q. Tarun, Abhishek, Kamal and Vivek were partners	1 ½ + 1 ½																														
	Ans.																															
	Books of Tarun, Abhishek, Kamal and Vivek																															
	JOURNAL																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Date</th> <th style="width: 40%;">Particulars</th> <th style="width: 5%;">L.F.</th> <th style="width: 15%;">Dr. Amount(₹)</th> <th style="width: 10%;">Cr. Amount(₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>Abhishek's Capital A/c</td> <td>Dr.</td> <td>75,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>March 31</td> <td>Vivek's Capital A/c</td> <td>Dr.</td> <td>1,50,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">To Kamal's Capital A/c</td> <td></td> <td></td> <td>1,50,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">To Tarun's Capital A/c</td> <td></td> <td></td> <td>75,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">(adjustment for goodwill in gaining ratio on Kamal's retirement)</td> </tr> </tbody> </table>		Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount(₹)	Cr. Amount(₹)	2022	Abhishek's Capital A/c	Dr.	75,000		March 31	Vivek's Capital A/c	Dr.	1,50,000			To Kamal's Capital A/c			1,50,000		To Tarun's Capital A/c			75,000		(adjustment for goodwill in gaining ratio on Kamal's retirement)			
Date	Particulars		L.F.	Dr. Amount(₹)	Cr. Amount(₹)																											
2022	Abhishek's Capital A/c		Dr.	75,000																												
March 31	Vivek's Capital A/c		Dr.	1,50,000																												
	To Kamal's Capital A/c				1,50,000																											
	To Tarun's Capital A/c				75,000																											
	(adjustment for goodwill in gaining ratio on Kamal's retirement)																															
	Working																															
	Old Ratio – Tarun: Abhishek: Kamal: Vivek = 5:3:2:2																															
	New Ratio - Tarun: Abhishek: Vivek = 1:1:1																															
	Gaining Share of Tarun = New Share – Old Share = $\frac{1}{3} - \frac{5}{12}$ = $(-) \frac{1}{12}$ {sacrifice}																															
	Gaining Share of Abhishek = New Share – Old Share = $\frac{1}{3} - \frac{3}{12}$ = $\frac{1}{12}$ {gain}																															



Gaining Share of Vivek = New Share – Old Share
 = $1/3 - 2/12$
 = $2/12$ {gain}
 Kamal's share of Goodwill = $2/12 \times 9,00,000 = ₹ 1,50,000$

= 3 marks

OR

(b) Q. Atul and Geeta were partners

Ans.

**Books of Atul and Geeta
JOURNAL**

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount(₹)	Cr. Amount(₹)
	Cash <i>or</i> Bank A/c Dr.		20,000	
	To Atul's Capital A/c			12,000
	To Geeta's Capital A/c			8,000
	(cash brought in by Atul and Geeta for capital adjustment on Ira's admission)			

1 ½

Working

Old Ratio = Atul : Geeta = 3:2
 Ira admitted for 1/4 share,
 Remaining Share for Atul and Geeta = $1 - 1/4 = 3/4$
 New Share of Atul = $3/5 \times 3/4 = 9/20$
 New Share of Geeta = $2/5 \times 3/4 = 6/20$
 New Ratio = Atul : Geeta : Ira = 9:6:5
 Total Capital of New Firm = ₹ 40,000 x 4 = ₹ 1,60,000

+

	Atul Amount (₹)	Geeta Amount (₹)
New Capital	72,000	48,000
Less Existing Capital	60,000	40,000
Cash Brought In	12,000	8,000

1 ½

= 3 marks

18 (a) Q. Asha, Disha and Raghav were partners.....

Ans.

**Profit and Loss Appropriation Account
for the year ended 31st March 2022**

Dr.		Cr.	
Particulars	Amount (₹)	Particulars	Amount (₹)
To Profit transferred to Partners' Capital A/c		By P&L A/c (Net Profit)	1,20,000
Asha 40,000		(1/2)	
(-) guarantee to Raghav <u>8,000</u>	32,000	(1/2)	
Disha 60,000		(1/2)	
(-) guarantee to Raghav <u>12,000</u>	48,000	(1 ½)	
Raghav 20,000			
(+) guarantee from Asha 8,000			
(+) guarantee from Disha <u>12,000</u>	40,000		
	1,20,000		1,20,000

3 marks

OR

(b) Q. Akhil and Nikhil were partners.....

Ans.

**Profit and Loss Appropriation Account
for the year ended 31st March 2022**

Dr.

Cr.

Particulars	Amount (₹)	Particulars	Amount (₹)
To Salary Nikhil's Current A/c <u>9,200</u> (1/2)	9,200	By P&L A/c Net Profit 1,20,000 (+) Nikhil's Salary <u>9,200</u> (1/2)	1,29,200
To Interest on Capital Akhil's Current A/c 6,000 Nikhil's Current A/c <u>4,800</u> (1)	10,800		
To Profit transferred to Partners' Current A/c Akhil 65,520 Nikhil <u>43,680</u> (1)	1,09,200		
	1,29,200		1,29,200

3
marks

19 Q. Aayush and Aarushi are partners.....

Ans. Average Net Profit = ₹ 20,000

Normal Profit = Normal Rate of Return x Capital Employed

$$\text{Normal Profit} = \frac{10}{100} \times 50,000 = ₹ 5,000 \dots\dots\dots (1/2)$$

$$\begin{aligned} \text{Super Profit} &= \text{Average Net Profit} - \text{Normal Profit} \\ &= 20,000 - 5,000 \\ &= ₹ 15,000 \dots\dots\dots (1/2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Goodwill of the firm} &= \text{Super Profit} \times \text{Number of Years' Purchase} \dots\dots\dots (1/2) \\ &= 15,000 \times 3 \\ &= ₹ 45,000 \dots\dots\dots (1/2) \end{aligned}$$

$$\text{Goodwill Premium brought by Naveen} = \frac{1}{4} \times 45,000 = ₹ 11,250 \dots\dots\dots (1)$$

3
marks

20 Q. Kuber Ltd. purchased assets worth

Ans.

Books of Kuber Ltd.

JOURNAL

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount(₹)	Cr. Amount(₹)
	Assets A/c Dr. To Liabilities A/c To Amrit Ltd. To Capital Reserve A/c (business of Amrit Ltd. taken over at ₹ 8,00,000)		10,00,000	1,00,000 8,00,000 1,00,000
	Amrit Ltd. Dr. To Bank A/c (paid Amrit Ltd ₹ 2,60,000 by cheque)		2,60,000	2,60,000
	Amrit Ltd. Dr. Discount on Issue of Debentures A/c Dr. To 12% Debentures A/c (6,000, 12% debentures of ₹ 100 each issued at a discount of 10%)		5,40,000 60,000	6,00,000

1 x 3
= 3
marks

21 Q. Unnati Ltd. was registered with an authorized capital
Ans.

Books of Unnati Ltd.
BALANCE SHEET as at (Extract)

Particulars	Note No.	Amount (₹)
I EQUITY AND LIABILITIES		
1. Shareholders' Funds		
a. Share Capital	1	5,71,000

Notes to Accounts: -

Particulars	Amount (₹)
1. Share Capital	
Authorized Capital	
80,000 Equity Shares of ₹ 10 each	<u>8,00,000</u>
Issued Capital	
60,000 Equity Shares of ₹ 10 each	<u>6,00,000</u>
Subscribed Capital	
Subscribed and Fully Paid Up	
55,000 Equity Shares of ₹ 10 each	5,50,000
Add: Share Forfeiture A/c	21,000
	5,71,000

1
+

1
+

1
+

1/2
+
1/2
= 4
marks



22 Q. A, B and C were partners

Ans.

Dr. **B's Capital Account** Cr.

Particulars	Amount (₹)	Particulars	Amount (₹)
To B's Legal Representatives A/c (1/2)	3,42,500	By Balance b/d (1/2)	2,00,000
		By General Reserve A/c (1/2)	1,00,000
		By Interest on Capital A/c (1/2)	6,000
		By A's Capital A/ (1/2)	16,000
		By C's Capital A/c (1/2)	8,000
		By P&L Suspense A/c (1)	12,500
	3,42,500		3,42,500

4 marks

Working Notes

- Interest on B's Capital = $2,00,000 \times \frac{12}{100} \times \frac{3}{12} = ₹ 6,000$
- B's Share of Profit = $\frac{2,50,000}{10,00,000} \times 1,25,000 \times \frac{2}{5} = ₹ 12,500$

Note – No marks for working notes

23 (a) Q. Kamal, Rahul and Neeraj were partners

Ans.

Dr. **Revaluation Account** Cr.

Particulars	Amount (₹)	Particulars	Amount (₹)
To Stock (1/2)	10,000	By Creditors (1/2)	10,000
	10,000		10,000

1 +

Dr. **Partners' Capital Accounts** Cr.

Particulars	Kamal (₹)	Rahul (₹)	Neeraj (₹)	Particulars	Kamal (₹)	Rahul (₹)	Neeraj (₹)
To Rahul's Capital A/c (1/2)	75,000		30,000	By balance b/d (1/2)	1,20,000	1,20,000	1,20,000
To Rahul's Loan A/c (1/2)		2,61,000		By General Reserve A/c (1)	60,000	36,000	24,000
To Cash A/c (1/2)			54,000	By Kamal's Capital A/c (1/2)		75,000	
				By Neeraj's Capital A/c (1/2)		30,000	
To balance c/d (1/2)	1,50,000		60,000	By Cash A/c (1/2)	45,000		
	2,25,000	2,61,000	1,44,000		2,25,000	2,61,000	1,44,000

5

= 6 marks

OR

OR

(b) Q. Ashish and Vishesh were partners

Ans.

**Books of Ashish and Vishesh
JOURNAL**

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (₹)	Cr. Amount (₹)
2022 April 1	Cash <i>or</i> Bank A/c Dr. To Manya's Capital A/c To Premium for Goodwill A/c (capital and premium for goodwill amount brought by Manya)		1,50,000	1,00,000 50,000
"	Premium for Goodwill A/c Dr. To Ashish's Capital A/c To Vishesh's Capital A/c (premium for goodwill amount distributed between sacrificing partners in sacrificing ratio)		50,000	30,000 20,000
"	Outstanding Electricity Bill A/c Dr. To Cash <i>or</i> Bank A/c (outstanding electricity bill paid off)		20,000	20,000
"	Revaluation A/c Dr. To Stock A/c (value of stock reduced by ₹ 12,000)		12,000	12,000
"	Ashish's Capital A/c Dr. Vishesh's Capital A/c Dr. To Revaluation A/c (loss on revaluation distributed between old partners in old ratio)		7,200 4,800	12,000
"	Ashish's Capital A/c Dr. Vishesh's Capital A/c Dr. To Profit and Loss A/c (existing loss distributed between old partners in old ratio)		6,000 4,000	10,000

**1 x 6
= 6
marks**



24 (a) Q. Vani Limited invited applications

Ans

**Books of Vani limited
JOURNAL**

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (₹)	Cr. Amount (₹)
	Bank A/c Dr. To Equity Share Application & Allotment A/c (application amount received on 1,50,000 shares)		6,00,000	6,00,000
	Equity Share Application & Allotment A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Securities Premium A/c <i>or</i> Securities Premium Reserve A/c To Calls in Advance A/c (application amount transferred to equity share capital, securities premium and calls in advance)		6,00,000	3,00,000 1,00,000 2,00,000
	Equity Share First Call A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (first call amount due on 1,00,000 shares)		4,00,000	4,00,000
	Bank A/c Dr. Calls in Advance A/c Dr. Calls in Arrears A/c Dr. To Equity Share First Call A/c (first call amount received, calls in advance adjusted and calls in arrears debited)		1,99,200 2,00,000 800	4,00,000
	Equity Share Capital A/c Dr. To Share Forfeiture A/c To Calls in Arrears A/c (400 shares forfeited due to non-payment of first call)		2,800	2,000 800
	Bank A/c Dr. Share Forfeiture A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (reissue of 200 shares at ₹ 8 per share fully paid up)		1,600 400	2,000
	Share Forfeiture A/c Dr. To Capital Reserve A/c (gain on 200 reissued shares transferred to capital reserve)		600	600

1/2

+

1

+

1/2

+

1

+

1

+

1

+

1

= 6

marks

OR

OR



(b) Q. Pass necessary journal entries

Ans.

(i)

Books of Vipin Ltd.

JOURNAL

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (₹)	Cr. Amount (₹)
	Share Capital A/c Dr. To Share Forfeiture A/c To Calls in Arrears <i>or</i> Share Second and Final Call A/c (forfeiture of 10,000 shares for non-payment of second and final call of ₹ 2 per share)		1,00,000	80,000 20,000
	Bank A/c Dr. Share Forfeiture A/c Dr. To Share Capital A/c (reissue of 6,000 shares at ₹ 7 per share fully paid up)		42,000 18,000	60,000
	Share Forfeiture A/c Dr. To Capital Reserve A/c (gain on 6,000 reissued shares transferred to capital reserve)		30,000	30,000

1 x 3
= 3
marks

(ii)

Books of Deepak Ltd.

JOURNAL

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (₹)	Cr. Amount (₹)
	Share Capital A/c Dr. To Share Forfeiture A/c To Calls in Arrears <i>or</i> Share First Call A/c (forfeiture of 800 shares for non-payment of first call of ₹ 3 per share)		6,400	4,000 2,400
	Bank A/c Dr. To Share Capital A/c To Securities Premium A/c <i>or</i> Securities Premium Reserve A/c (reissue of 800 shares for ₹ 12 per share fully paid up)		9,600	8,000 1,600
	Share Forfeiture A/c Dr. To Capital Reserve A/c (gain on 800 reissued shares transferred to capital reserve)		4,000	4,000

1 x 3
= 3
marks

(3+3
= 6
marks)



25 Q. Pass necessary journal entries for the following

Ans.

**Books of Mita and Sonu
JOURNAL**

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (₹)	Cr. Amount (₹)
2022 March 31	(a) No Entry		-	-
"	(b) Sonu's Capital A/c Dr. To Realisation A/c (debtors taken over by Sonu at ₹ 40,000)		40,000	40,000
"	(c) Realisation A/c Dr. To Sonu's Capital A/c (realization expenses ₹ 1,800 paid by Sonu)		1,800	1,800
"	(d) Mita's Capital A/c Dr. To Realisation A/c (machine taken over by Mita at ₹ 11,000)		11,000	11,000
"	(e) Realisation A/c Dr. To Sonu's Capital A/c (Mrs Sonu's loan ₹ 20,000 taken over by Sonu)		20,000	20,000
"	(f) Realisation A/c Dr. To Mita's Capital A/c To Sonu's Capital A/c (profit on dissolution transferred to partners' capital accounts in old ratio)		50,000	25,000 25,000

1 x 6
= 6
marks

26 Q. Chiranjeevi Limited issued

Ans.

**Books of Chiranjeevi Ltd.
JOURNAL**

Date	Particulars	L.F.	Dr. Amount (₹)	Cr. Amount (₹)
	a) Bank A/c Dr. To Debenture Application & Allotment A/c (application amount received on 2,000 debentures)		2,20,000	2,20,000

<p>Debenture Application & Allotment A/c Dr. 2,20,000</p> <p>Loss on Issue of Debentures A/c Dr. 10,000</p> <p> To 10% Debentures A/c 2,00,000</p> <p> To Securities Premium <i>or</i> 20,000</p> <p> Securities Premium Reserve A/c</p> <p> To Premium on Redemption of Debentures A/c 10,000</p> <p>(application amount transferred to debentures a/c, securities premium a/c and provision for premium on redemption of debentures made)</p>			
<p>b) Bank A/c Dr. 1,90,000</p> <p> To Debenture Application & Allotment A/c 1,90,000</p> <p>(application amount received on 2,000 debentures)</p>			
<p>Debenture Application & Allotment A/c Dr. 1,90,000</p> <p>Loss on Issue of Debentures A/c Dr. 30,000</p> <p> To 10% Debentures A/c 2,00,000</p> <p> To Premium on Redemption of Debentures A/c 20,000</p> <p>(application amount transferred to debentures a/c and provision for premium on redemption of debentures made)</p> <p>Note – Full credit to be given if student has debited Discount on Issue of Debenture Account and Loss on Issue of Debenture Account separately.</p>			
<p>c) Bank A/c Dr. 2,00,000</p> <p> To Debenture Application & Allotment A/c 2,00,000</p> <p>(application amount received on 2,000 debentures)</p>			
<p>Debenture Application & Allotment A/c Dr. 2,00,000</p> <p>Loss on Issue of Debentures A/c Dr. 20,000</p> <p> To 10% Debentures A/c 2,00,000</p> <p> To Premium on Redemption of Debentures A/c 20,000</p> <p>(application amount transferred to debentures a/c and provision for premium on redemption of debentures made)</p>			

**1 x 6
= 6
marks**



PART B OPTION I (ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS)																		
27	<p>(a) Q. Which of the following transaction will result</p> <p>Ans. (C) -- Acquisition of machinery by issue of equity shares</p> <p style="text-align: center;"><u>OR</u></p> <p>(b) Q. Match the transactions given</p> <p>Ans. (B) -- (a) (b) (c) (ii) (i) (iii)</p>	<p>1 mark</p> <p><u>OR</u></p> <p>1 mark</p>																
28	<p>(a) Q. Which of the following are not tools</p> <p>Ans. (C) -- (ii) and (iii)</p> <p style="text-align: center;"><u>OR</u></p> <p>(b) Q. Which one of the following statement</p> <p>Ans. (B) -- Current ratio is also known as Acid Test Ratio</p>	<p>1 mark</p> <p><u>OR</u></p> <p>1 mark</p>																
29	<p>Q. Which of the following activities are operating</p> <p>Ans. (D) – (ii) and (iii)</p>	1 mark																
30	<p>Q. The current assets of X Ltd.</p> <p>Ans. (B) -- ₹ 3,00,000</p>	1 mark																
31	<p>Q. Under which major heads and sub heads.</p> <p>Ans.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">S.N.</th> <th style="width: 40%;">Item</th> <th style="width: 30%;">Major Head</th> <th style="width: 25%;">Sub Head</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">a</td> <td>Cheques-Drafts on Hand</td> <td>Current Assets</td> <td>Cash and Cash Equivalents</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b</td> <td>Work-in-Progress</td> <td>Current Assets</td> <td>Inventories</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">c</td> <td>Balance in Statement of Profit and Loss</td> <td>Shareholders' Funds</td> <td>Reserves and Surplus</td> </tr> </tbody> </table>	S.N.	Item	Major Head	Sub Head	a	Cheques-Drafts on Hand	Current Assets	Cash and Cash Equivalents	b	Work-in-Progress	Current Assets	Inventories	c	Balance in Statement of Profit and Loss	Shareholders' Funds	Reserves and Surplus	<p>1/2 x 6 = 3 marks</p>
S.N.	Item	Major Head	Sub Head															
a	Cheques-Drafts on Hand	Current Assets	Cash and Cash Equivalents															
b	Work-in-Progress	Current Assets	Inventories															
c	Balance in Statement of Profit and Loss	Shareholders' Funds	Reserves and Surplus															
32	<p>Q. It is a technique which involves</p> <p>Ans.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratio Analysis • Objectives of Ratio Analysis (any two) <ol style="list-style-type: none"> 1) To know the areas of the business which need more attention; 2) To know about the potential areas which can be improved with the efforts in the 	<p>1 + 2</p>																

	<p>desired direction;</p> <p>3) To provide a deeper analysis of the profitability, liquidity, solvency and efficiency levels in the business;</p> <p>4) To provide information for making cross-sectional analysis by comparing the performance with the best industry standards</p> <p>5) To provide information derived from financial statements useful for making projections and estimates for the future.</p>	= 3 marks
33	<p>(a) Q. From the following information, calculate</p> <p>Ans.</p> <p style="text-align: right;">Inventory Turnover Ratio = $\frac{\text{Cost of Revenue from Operations}}{\text{Average Inventory}}$ (1/2)</p> <p>Revenue from Operations = ₹ 10,00,000</p> <p>Gross profit = 20% of Revenue from Operations = 20% of 10,00,000 = ₹ 2,00,000 (1/2)</p> <p>Cost of Revenue from Operations = Revenue from Operations – Gross Profit = 10,00,000 – 2,00,000 = ₹ 8,00,000 (1)</p> <p>Now, Inventory Turnover Ratio = 4 times</p> <p style="text-align: center;">$4 = \frac{8,00,000}{\text{Average Inventory}}$</p> <p style="text-align: right;">Average Inventory = ₹ 2,00,000 (1/2)</p> <p style="text-align: center;">Average Inventory = $\frac{\text{Opening Inventory} + \text{Closing Inventory}}{2}$</p> <p style="text-align: center;">$2,00,000 = \frac{1/4 \text{ Closing Inventory} + \text{Closing Inventory}}{2}$</p> <p style="text-align: center;">$4,00,000 = 1/4 \text{ Closing Inventory} + \text{Closing Inventory}$ $4,00,000 = 5/4 \text{ Closing Inventory}$ Closing Inventory = ₹ 3,20,000 (1)</p> <p style="text-align: right;">Opening Inventory = $1/4 \times 3,20,000$ = ₹ 80,000 (1/2)</p> <p style="text-align: center;"><u>OR</u></p> <p>(b) Q. Debt-Equity Ratio of Z Ltd. is</p>	4 marks <u>OR</u>

Ans.

S.N.	Effect on Ratio	Reason
i	Decline	Decrease in Debt and Increase in Equity
ii	No Change	No change in Debt and No change in Equity
iii	Decline	Decrease in Debt and No change in Equity
iv	No Change	No change in Debt and No change in Equity

1/2
x 8
= 4
marks

34 Q. Read the following hypothetical text and answer the questions

Ans.

Dr. Machinery Account		Cr.	
Particulars	Amount (₹)	Particulars	Amount (₹)
To Balance b/d	20,00,000	By Accumulated Depreciation A/c	20,000
To Statement of P/L (gain)	30,000	By Bank A/c (sale)	4,10,000
To Bank A/c (purchase)	12,00,000	By Balance c/d	28,00,000
	32,30,000		32,30,000

1
+

Dr. Accumulated Depreciation on Machinery Account		Cr.	
Particulars	Amount (₹)	Particulars	Amount (₹)
To Machinery A/c	20,000	By Balance b/d	60,000
To Balance c/d	90,000	By Depreciation A/c	50,000
	1,10,000		1,10,000

1/2
+

Cash Flow from Investing Activities

Particulars	Amount (₹)
Purchase of Machinery	(12,00,000)
Sale of Machinery	<u>4,10,000</u>
Net cash used in investing activities	(7,90,000)

1 ½
+

Cash Flow from Financing Activities

Particulars	Amount (₹)
Redemption of 11% Debentures	(20,00,000)
Premium on Redemption of 11% Debentures	(2,00,000)
Interest Paid on 11% Debentures	(5,50,000)
Issue of equity share capital	30,00,000
Dividend paid on Equity Shares	<u>(3,00,000)</u>
Net cash used in financing activities	(50,000)

1 +
1 +
1

Note – If an examinee has prepared Machinery Disposal Account, due credit is to be given.

= 6
marks

	<p>(a) <u>Number formatting</u> Number formatting includes adding percent symbols (%), commas(,), decimal places, and currency sign (\$,<etc.), date, time, scientific values and as well as some special formats to a spreadsheet. The type of number format can be determined once the data is entered into the cell.</p> <p>(b) <u>Percentages</u> If we enter a value representing a percentage as a whole number followed by percentage sign without any decimal places. Excel assigns to the cell the percentage format that follows this pattern along with the entry.</p> <p>(c) <u>Dates</u> If we enter a date (dates are values, too) that follows one of the built-in Excel number formats, such as 26-04-2021 or 26th April – 2021 the program assigns a Date format that follows the pattern of the date.</p>	<p>1 x 3 = 3 marks</p>
<p>33</p>	<p>(a) Q. Define Accounting cycle</p> <p>Ans. Accounting Cycle Accounting Cycle means the process involved in identifying, measuring and communicating the information.</p> <p>The basic phases of the cycle are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Business transactions are analysed • The transactions are recorded in the journal • Journal entries are posted to the ledger accounts • Accounts are reviewed and the necessary adjustments made. • Adjustments are posted in the ledger to prepare adjusted trial balance. • Adjusted trial balance is used to prepare the Balance Sheet and Profit and Loss Account • Financial statements are prepared from the finally adjusted ledger and balancing the accounts <p style="text-align: center;"><u>OR</u></p> <p>(b) Q. Explain the meaning.....</p> <p>Ans. Password Security Password is widely accepted security control to access the data. Only the authorised person can access the data. It ensures data integrity. It uses a binary encoding format of storage and offers access to the database.</p> <p>Data Audit Audit feature of accounting software provides the user with administrator right in order to keep track of unauthorised access to the database. It's an audit for the correctness of the entries.</p>	<p>1/2 + 3 ½ = 4 marks</p> <p><u>OR</u></p> <p>2 + 2 = 4 marks</p>

34	<p>Q. Name the error which appears</p> <p>Ans. The error is known as ____ REF ! Error.</p> <p>This error is corrected by:</p> <p>(i) Click the cell that displays the error, click the button that appears and then click <u>Show Calculations Steps</u> if it appears.</p> <p>(ii) Review the following possible causes and solutions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deleting cells referred to by other formulas, or pasting moved cells over cells referred to by other formulas. • Change the formulas, or restore the cells on the worksheet by clicking undo immediately after we delete or paste the cells. • Using an object-linking and Embedding (OLE) link to a program that is not running. • Start the program. • Linking to a Dynamic Data Exchange (DDE) topic such as “system” that is not available. • Make sure that we are using the correct DDE topic. • Running a macro that enters a function that returns # REF! 	<p>1</p> <p>+</p> <p>5</p> <p>= 6</p> <p>marks</p>
----	---	---

